



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 1982/श्रावण 28, 1904

No. 15]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 1982/SRAVANA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 17 अगस्त, 1982

सीमा शुल्क तथा राष्ट्रीय उत्पादन शुल्क संशोधन

२० 45 /क।० नं० ए-32012/7/8 --प्रशा० II --राष्ट्रपति ने भारतीय सीमा शुल्क तथा वस्तु उत्पादन शुल्क सभा समूह 'क' वरिष्ठ वित्तमाम (700-1300 ए) के निम्नलिखित अधिकारियों का दिनांक 1 नवम्बर, 1981 में प्रगट्य आदेश के तहत स्थानापन्न आक्षार पर वरिष्ठ वित्तमाम (1100-1300 ए) में पालन किया है --

क्रम	वर्तमान का नाम	वर्तमान तैनाती
1	2	3
1	श्रीमती अन्ना सहता	विभाग तथा अधिकारी वाणिज्य मन्त्रालय नई दिल्ली ।
2	श्री एम० आर० बार्ता	गंगा निदेशक का चुक है ।
3	आई० आर० रातो	सहायक निदेशक विचारक सभा के निदेशक नई दिल्ली ।
4	श्रीमती चित्रा साहा	राजपत्र समाहता नं० 30 शु० का समाहता 4य (छठी पर)
5	श्री एन० एम० मातोता	सहा निवृत्त का चुक है ।

1	2	3
6	श्री टी० बी० गार्डराम	सहायक निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली ।
7	एम० डी० खन्ना	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, नं० 30 शु० का तथा नं० 30 शु० नई दिल्ली ।
8	पी० जी० पाय	सहायक समाहता कलकता सीमा शुल्क गृह ।
9	रमेश रामचन्द्र	अवर सचिव नं० 30 शु० तथा नं० 30 शु० नई दिल्ली ।
10	एम० सी० मित्रा	सहायक निदेशक का चुक है ।
11	एम० पी० सुधीर	सहायक समाहता नं० 30 शु०, गंगास समाहता 4य ।
12	बी० एन० मेहता	सहायक निदेशक का चुक है ।
13	एम० एन० देवागढा	सहायक निदेशक का चुक है ।
14	एम० के० चक्रवर्ती	सहायक निदेशक का चुक है ।
15	एम० के० पी० मित्रा	सहायक निदेशक का चुक है ।
16	के० सी० लाहिरी	सहायक समाहता कलकता नं० 30 शु० गंगा ।
17	श्रीमती सुनिता बास	सहायक समाहता (निरीक्षण अधिकारी) निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशक, नं० 30 शु० तथा नं० 30 शु०, दिल्ली ।

1	2	3	1	2	3
18. श्री एस० के० मिश्र	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, कलकत्ता, समाहर्तालय ।		46. श्री एस० के० हालदार	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
19. ,, एस० एस० काकटे	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		47. ,, एस० एस० मेरया	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
20. ,, के० पी० सिंह	कृषि मंत्री के निजी सचिव, नई दिल्ली ।		48. ,, भार० एन्सेडिया	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, बम्बई-1, समाहर्तालय ।	
21. ,, श्री० ज० एफ० गोम्स	सहायक समाहर्ता, गोवा सी० शु० गृह ।		49. ,, बी० साहा (अनु० जाति)	सहायक निदेशक, भार० टी० आई० कलकत्ता ।	
22. ,, दर्शन सिंह	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		50. ,, एस० बी० एस० प्रकाश राव	सहायक समाहर्ता, मद्रास सी० शु० गृह ।	
23. ,, कु० रं० चौकर (श्रीमती प्रेम बी० पी० सिंह)	उप सचिव संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।		51. ,, एस० श्री० कोथन्वारमन	सहायक समाहर्ता, मद्रास सी० शु० गृह ।	
24. ,, एस० पी० एस० पुण्डरीर	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के० उ० शु० तथा सी० शु० बोर्ड, नई दिल्ली ।		52. ,, एन० सी० मुखर्जी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
25. ,, एस० एस० रज	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		53. ,, ए० के० दत्ता	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
26. ,, एस० के० भाडा	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी अधीन पुनरीक्षण एकक, राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।		54. ,, भार० पार्थासारथी	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, बम्बई-11 समाहर्तालय ।	
27. ,, टी० डी० चौधरी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		55. ,, एच० भार० श्रीनिवासन	सहायक समाहर्ता, मद्रास सी० शु० गृह ।	
28. ,, मिलन चक्रवर्ती	सहायक समाहर्ता (निरीक्षी अधिकारी) ई० भार० यू०, निरीक्षण एवं सेवा परीक्षा निदेशालय, सी० शु० तथा के० उ० शु०, कलकत्ता ।		56. ,, टी० की० कृष्णामूर्ती	स्वैच्छा से सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
29. ,, एस० तुलसीदास	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		57. ,, टी० भार० एस० मनी	सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मद्रास ।	
30. ,, महेश्वर प्रसाद	सहायक समाहर्ता, कलकत्ता सी० शु० गृह ।		58. ,, के० कुमार	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।	
31. ,, जय किशन	स्वैच्छा से सेवा निवृत्त हो गये हैं ।		59. ,, एन० आई० रामनाथन	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।	
32. ,, भार० जे० पारदीवाल	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		60. ,, बी० भार० बाबला	सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली ।	
33. ,, जी० चिमरकार	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		61. ,, एस० के० एम० प्रभुलाल	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, मधुरी समाहर्तालय ।	
34. ,, भाला राम (अनु० जाति) (बी० भार० महरा)	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, इलाहाबाद समाहर्तालय ।		62. ,, एस० एन० पोन्धरकार	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
35. ,, मानम प्रसाद	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		63. ,, सी० डब्ल्यू० ए० फर्नान्डिस	स्वैच्छा से सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
36. ,, के० जी० भास्करन (अनु० जाति)	सहायक समाहर्ता, बम्बई सी० शु० गृह ।		64. ,, ए० सी० ए० मार्टिन	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
37. ,, आई० एस० माथुर	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		65. ,, जी० डी० पाल	सहायक निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली (प्रतिनिधित्व पर) ।	
38. ,, पी० के० सेन गुप्ता	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		66. ,, एस० पी० जटर्जी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
39. ,, जेड० बी० नागरवार (अनु० जाति)	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।		67. ,, रामधन देव	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।	
40. ,, पी० सुब्रामणी	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु० पटना, समाहर्तालय ।		68. ,, एल० ए० डी० गामा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
41. ,, श्री० वत्त	अवर सचिव, राजस्व विभाग नई दिल्ली । (बहु वरिष्ठ वेतनमान में विमांक 21-7-1974 से वेतन हेंगे)		69. ,, एम० एल० शर्मा	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।	
42. ,, एन० एल० गजकोटा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		70. ,, जी० पी० दास गुप्ता	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
43. ,, ए० जे० डी० कुन्हा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		71. ,, एम० कोटिगुडि	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
44. ,, के० के० सेन गुप्ता	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		72. ,, सी० बी० कुमारसेन	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
45. ,, के० एस० धर्मस्वरूपन	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।		73. ,, बी० के० सम्शानी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
			74. ,, पी० के० धर्मपाल	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
			75. ,, भार० सी० वत्त	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
			76. ,, बी० रामचन्द्रन	सहायक समाहर्ता, भार० टी० आई० मद्रास ।	
			77. ,, भार० सुहृदीयन	भारत द्वीप द्वीपकल्प से खप्रा लिए गये हैं ।	

1	2	3
78	श्री टी० गुप्ता	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
79	„ एन० के० कपूर	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।
80	„ एन० आर० बनर्जी	मृत्यु हो चुकी है।
81	„ के० राम चन्द्रन	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
82	„ पी० एन० अहलूवालिया	सहायक समाहर्ता (निरीक्षी अधिकारी) निरीक्षण निदेशालय, सी० शु० तथा के० उ० शु० बम्बई।
83	„ पी० एम० बकटगरी	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, हैदराबाद समाहर्तालय।
84	„ एन० बी० दास	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
85	„ बी० ए० पन्डकर	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
86	श्री डब्ल्यू० एम० कृष्णन	सहायक निदेशक, आर० टी० आई० मद्रास।
87	„ ए० एम० शेख आदम	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
88	„ बी० एन० सम्तानी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
89	„ एम० के० दत्ता गुप्ता	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
90	„ डी० एल० पाथ	सहायक समाहर्ता, मद्रास सी० शु० गृह।
91	„ के० रिखी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
92	„ विजय कुमार	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु० दिल्ली समाहर्तालय।
93	„ जे० सी० हेल्गे	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
94	„ एम० टीकमदास	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
95	„ सी० चन्द्रशेखरन	सहायक निदेशक, आर० टी० आई० मद्रास।
96	„ एम० एम० माधुर	व्यापार विकास, नई दिल्ली में प्रति नियुक्ति पर।
97	„ बी० डी० गुप्त	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
98	„ टी० बी० बिन्दर	सहायक समाहर्ता, मद्रास सी० शु० गृह।
99	„ एम० एम० राजप्पा	सहायक समाहर्ता, बम्बई सी० शु० गृह।
100	„ आई० एम० धुन्देश	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
101	„ एच० एम० बर्मा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

सं० 46/फ० सं० ए०-32102/7/82—प्रशा० II—राष्ट्रपति ने भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा समूह 'क' कनिष्ठ वेतनमान (700—1300 रु०) के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 नवम्बर, 1974 में अगला आदेश के होने तक स्थानापन्न आधार पर वरिष्ठ वेतनमान (1100—1600 रु०) में पदोन्नत किया है—

क्र०	अधिकारी का नाम	वर्तमान सेताती
1	2	3
1.	श्री के० एम० सिवारा	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु० बम्बई-1 समाहर्तालय।
2	„ के० एम० व्यास	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

1	2	3
3	श्री एस० श्रीधरन	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।
4	„ एम० पी० अग्रवाल	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
5	„ एस० कृष्णामूर्ती	सहायक समाहर्ता के० उ० शु० बंगलौर समाहर्तालय।
6	„ पी० एन० श्रीनिवासन	सहायक समाहर्ता, मद्रास सी० शु० गृह।
7	„ भोकार राथ	सहायक समाहर्ता के० उ० शु०, हैदराबाद।
8	„ जसवन्त मिश्र	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
9	„ वाई० आर० सचदेव	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
10	„ एस० पी० माधुर	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, जयपुर समाहर्तालय।
11	„ डी० पी० दुबे	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
12	„ पी० सी० झा	सहायक निदेशक, राजस्व आयुक्तानिदेशालय, दिल्ली।
13	„ एम० एम० माडविवाला	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
14	„ के० के० अग्रवाल	ज० डी० आर० (म० क०), सी० ई० जी० ए० टी०, नई दिल्ली।
15	„ आर० बिहारी	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु० हैदराबाद समाहर्तालय।
16	श्रीमती कामला चौधरी	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, मद्रास, समाहर्तालय।
17	श्री ए० के० राहा	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।
18	„ जोगेन्द्र मिश्र	अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
19	„ एस० के० मनगावकार	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
20	„ एम० के० पाली	सहायक समाहर्ता, बम्बई सी० शु० गृह।
21	„ डब्ल्यू० जे० रोब	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
22	„ पी० एन० सारंगी	सहायक समाहर्ता, बम्बई सी० शु० गृह।
23	„ बी० मोरस्वामी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
24	„ ज० एम० बाघ	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
25	„ एम० ए० भीमैया (अनु० जाति)	सहायक निदेशक, राजस्व आयुक्तानिदेशालय बंगलौर।
26	„ जे० एम० जैन	जे० डी० आर० (म० क०) सी० ई० जी० ए० टी० बम्बई।
27	„ ज० एम० आर० काथिंग (अनु० जन जाति)	अवर सचिव राजस्व विभाग, नई दिल्ली।
28	„ एन० पी० सिन्हा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
29	„ जैड० टोछाबांग (अनु० जन जाति)	सहायक समाहर्ता, के० ई० शु० बंगलौर समाहर्तालय।
30	„ पी० एम० सान्याल	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

सं 47/कां सं ए०—32012/7/82-प्रशा० II —राष्ट्रपति ने, भारतीय सीमा तथा वन्द्य उल्पादन शुल्क सेवा समूह 'क' कनिष्ठ वेतनमान (क 700—1300) के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 से श्रेणी आदेश हान तक स्थानापन्न आधार पर वर्ग 3 वेतनमान (1100—1600 रु०) में पदोन्नत किया है —

क्र० सं	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती
1	2	3
1	श्री बी० के० शर्मा	सहायक समाहर्ता क० उ० शु० इलाहाबाद समाहर्तालय ।
2	एम० एम० बन्ध्या	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
3	ई० मल्लिक	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
4	बी० एम० गुरु	श्रीधौगिरि लागत एवं मूल्य व्यय में (प्रति नियुक्ति पर)
5	बार्दे प० मनापती	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
6	जे० एम० क० शर्मा	सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय मद्रास ।
7	के० राम चौधरी	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
8	पी० गी० चटर्जी	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
9	युवराज शर्मा	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (प्रपील पुनरीक्षण) राजस्व विभाग नई दिल्ली ।
10	जी० आर० बगल	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
11	श्रीमती श्रीमती राधाकृष्णन	सहायक समाहर्ता क० उ० शु० कांचन समाहर्तालय ।
12	श्री जी० गी० वनर्जी	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
13	लक्ष्मीधर मिह	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी क० उ० शु० तथा सी० शु० बार्दे, नई दिल्ली ।
14	एम० एम० मुखर्जी	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
15	जे० के० तन्ना	अवर सचिव राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।
16	एम० एन० राय	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
17	के० सी० पुरी	सत्री मंडल सचिवालय नई दिल्ली ।
18	एम० एन० रत्नगन	अवर सचिव कामिष एवं प्रशासनिक गवार् विभाग, नई दिल्ली ।
19	एम० जी० न० मशमदार	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
20	एम० गायन	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
21	विजय मिह	सहायक समाहर्ता मद्रास सी० शु० गृह ।
22	एम० दफदार	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
23	द्वन्द्वर मिह	सहायक समाहर्ता, क० उ० शु० बंगलौर समाहर्तालय ।
24	बी० एम० राज	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
25	एम० मधापति	सहायक समाहर्ता, मद्रास सी० शु० गृह ।
26	ए० के० श्रीवास्तव	सहायक समाहर्ता कलकत्ता सी० शु० गृह ।

1	2	3
27	श्री बी० के० शर्मा	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
28	के० सुशामनाथ	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
29	बी० कुण्डवासो	सहायक समाहर्ता, क० उ० शु० मदर समाहर्तालय ।
30	एम० एम० रंजयनाथ	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
31	जे० आर० निमोर्गिया (अनु० जाति)	अवर सचिव राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।
32	के० के० जोषण	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
33	सामनाथ (अनु० जाति)	सहायक समाहर्ता बम्बई सी० शु० गृह ।
34	य० के० माधव	सहायक समाहर्ता क० उ० शु० हानपुर समाहर्तालय ।

सं 18/कां सं ए०—32012/7/82-प्रशा० II —राष्ट्रपति ने, भारतीय सीमा शुल्क तथा वन्द्य उल्पादन शुल्क सेवा समूह 'क' कनिष्ठ वेतनमान (क 700—1300) के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 अगस्त, 1976 से श्रेणी आदेश हान तक स्थानापन्न आधार पर वर्ग 3 वेतनमान (क 1100—1600) में पदोन्नत किया है —

क्र० सं	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती
1	2	3
1	श्री एम० मो० चौधरी	सहायक समाहर्ता बम्बई सी० शु० गृह ।
2	बी० एम० दिओफाडे	सहायक समाहर्ता क० उ० शु० चण्डीगढ़ समाहर्तालय ।
3	टी० गी० मैथ	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
4	एम० छिबेदी	सहायक निदेशक राजस्व आसूचना निदेशालय कलकत्ता ।
5	डी० गुब्बाराव	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
6	सी० एम० रायन	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
7	आर० एन० बर्मा	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
8	टी० के० जयराजन	सहायक समाहर्ता, क० उ० शु० पण्णे समाहर्तालय ।
9	ए० सी० मयमना	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
10	बी० श्रीधर	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (प्रपील पुनरीक्षण) राजस्व विभाग नई दिल्ली ।
11	आर० डी० पाराशर	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।
12	बी० बी० प्रसाद	सहायक समाहर्ता क० उ० शु०, मुंबई, समाहर्तालय ।
13	एम० पी० मिह	सहायक समाहर्ता, क० उ० शु० मुम्बई—1 समाहर्तालय ।
14	एम० पी० काला	सहायक निदेशक राजस्व आसूचना निदेशालय बम्बई ।
15	एम० सी० बक्	अवर सचिव राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।
16	एम० व० नाथराजन	सेवा नियुक्त हो चुके हैं ।

1	2	3
17 श्री आर० एम० रामचन्द्रानी	सहायक समाहर्ता, बम्बई सी० शु०, गृह ।	
18 „ आर० जे० देव्हा (अनु० जाति)	सहायक समाहर्ता के० उ० शु०, नागपुर समाहर्तालय ।	
19 „ एस० ए० पोगली	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
20 „ बाई० पी० पवार (अनु० जाति)	सहायक समाहर्ता (निरीक्षी अधिका- रों) निरीक्षण निदेशालय, सी० शु० तथा के० उ० शु०, नई दिल्ली ।	
21 „ के० जी० विवारा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
22 „ एम० एन० मिह	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
23 „ जीत राम कैत (अनु० जाति)	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, कलकत्ता समाहर्तालय ।	
24 „ एच० एस० शर्मा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
25 „ अमर मिह (अनु० जनजाति)	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, शिलांग समाहर्तालय ।	
26 „ आर० एम० पाटिल	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
27 „ जान लेगिलनैया (अनु० जनजाति)	सहायक समाहर्ता के० उ० शु०, शिलांग समाहर्तालय ।	

सं० 49/फा० सं० ए० 32012/7/82—प्रशा० II—राष्ट्रपति न, भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा समूह के कनिष्ठ वेतनमान (रु० 700—1300) के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई, 1977 से अगला आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर वरिष्ठ वेतनमान (रु० 1100—1600) में पदोन्नत किया है —

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती
1	2	3
1	श्री पी०बी० दाम	सहायक समाहर्ता, के० उ० शु०, मदुरै समाहर्तालय ।
2	मुभाप चन्दर	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के० उ० शु० तथा सी० शु० बोर्ड, नई दिल्ली ।
3	„ आर०पी० माथुर	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।
4	„ राकेश शर्मा	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।
5	„ जे०एस० अराडा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।
6	„ के०एस० नायर	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (अपील पुनरीक्षण), राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।
7	„ के०डी० मानकर	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।
8	„ अनिल भटनागर	सहायक नार्कोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर
9	„ मूरज प्रकाश	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।
10	„ गुरजीत मिह नारंग	सहायक समाहर्ता, बम्बई सामा शुल्क गृह ।
11	„ डी०एल० खोलकुटे	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।
12	„ टी०पी० सिखन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, चंडीगढ़, समाहर्तालय ।

1	2	3
13 श्री एच०आर० वरलिकर (अनु० जाति)	समा नियंत्रण हा चुके हैं ।	
14 कु० एल० एलीजेथ डेममिया (श्रीमती ललिता जैन)	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कच्छी समाहर्तालय ।	
15 श्री एस०एल० गद्याकुण्ड	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, काशीन समाहर्तालय ।	
16 „ बी०के० शर्मा	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी (अपील पुनरीक्षण) राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।	
17 „ डी०पी० माथुर	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
18 „ ए० भट्टाचार्या	एशियाई गेल मन्त्रिवालय, नई दिल्ली ।	
19 „ कैलाश नाथ भाग	गृह शुल्क समूह, के० उ० शु०, उत्पादन शुल्क, बम्बई-1 समाहर्तालय ।	
20 „ के०डी० प्रसमादा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
21 „ दिनेश कक्कर	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कानपुर समाहर्तालय ।	
22 श्रीमती चित्रा गारी लाल	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली समाहर्तालय ।	
23 श्री के०पी० मिश्र	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इन्दौर समाहर्तालय ।	
24 „ एस०डी० मजूमदार	एशियाई गेल मन्त्रिवालय नई दिल्ली ।	
25 „ के० राय	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
26 „ सी०के० कालानी	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता समाहर्तालय ।	
27 „ बी० लक्ष्मी कुमारन	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली ।	
28 „ ए०एस०आर० नाथर	सहायक समाहर्ता, कोचीन सीमा शुल्क गृह ।	
29 „ ए०के० बाम	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
30 „ सी०बी० शिवराम	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बंगलूर समाहर्तालय ।	
31 श्री ए०जे० पाल	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
32 श्री के०सी० मिश्र	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, गटना समाहर्तालय ।	
33 श्री श्रीधर प्रसाद	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
34 श्री आर०के० गुप्ता	सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, बम्बई ।	
35 श्री डी०बी० भण्ड	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
36 श्री पी० काशिकायन	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, काशीन समाहर्तालय ।	
37 श्री एम०बी० कीनिकर	सेवा निवृत्त हो चुके हैं ।	
38 श्री सी० आर० बजर (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, हरद्वार समाहर्तालय ।	
39 श्री ई०जे० कोडलह	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, भद्रांग समाहर्तालय ।	
40 श्री ए०डी० खडतार (अनुसूचित जनजाति)	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नागपुर समाहर्तालय ।	
41 श्री जार्ज वर्मा (अनु० जनजाति)	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बम्बई-1 समाहर्तालय ।	

1	2	3
42. श्री प्रेमराज (अनु० जनजाति)	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।	
43. श्री के०सी० शर्मावर्ती	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	

सं 50/का०सं० ए०-32012/7/82-प्रशा०-II-राष्ट्रपति ने, भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा समूह "क" कनिष्ठ बेतनमान (रु० 700-1300) के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई 1978 से अगला आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर बरिष्ठ बेतनमान (रु० 1100-1600) में पदोन्नत किया है।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती
1	2	3
1. श्री ए०के० गायन	बरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।	
2. श्री के०सी० परांठे	सहायक निदेशक, राजस्व, आसूचना निदेशालय, बम्बई।	
3. श्री पी०एस० कपूर	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
4. श्री हरिभोम बिहारी	सहायक समाहर्ता, (आई०यू०) निरीक्षण निदेशालय, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली।	
5. श्री ए०आर० सचदेवा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
6. कु० विजय लक्ष्मी शर्मा	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, चंडीगढ़ समाहर्तालय।	
7. श्री जी० एन० गोड़	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
8. श्री अजीत कुमार	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बम्बई-11 समाहर्तालय।	
9. श्री डी०के० दत्ता	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।	
10. श्री अशोक कपूर	सहायक समाहर्ता, के०उ०शु०, दिल्ली।	
11. श्री के० विजय राघवन	सहायक समाहर्ता, मद्रास सीमाशुल्क, गुड।	
12. श्री हृषिकेश शरण	सहायक निदेशक, राजस्व विभाग, आसूचना निदेशालय, पटना।	
13. श्री श्रीशिर कुमार	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इलाहाबाद समाहर्तालय।	
14. श्री टी०एस० गोहानी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
15. श्री टी० प्रेम कुमार	सहायक समाहर्ता, (निरीक्षा अधिकारी) निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, दिल्ली।	
16. श्री एस०एस० राणा	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।	
17. श्री सी० सतपती	बरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।	
18. श्री राकेश भाटिया	सहायक समाहर्ता (निरीक्षा अधिकारी), ए०आर०यू० निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क।	
19. श्री आयण, मैथ्यू	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, हैदराबाद समाहर्तालय।	

1	2	3
20. श्री प्रभाकर निगम	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कानपुर समाहर्तालय।	
21. कुमारी जमदीप कौर सिधु	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमाशुल्क, गुड।	
22. श्री वी०एम० खुल्लरखार	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
23. श्री गहलु गायन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कानपुर समाहर्तालय।	
24. श्री डी० मेहता	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।	
25. श्री आर०सी० निर्गुण	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
26. श्री सी० मट्टेण	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।	
27. श्री जे०ए० गडगीरस	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
28. श्री विनीत आहरी	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली, समाहर्तालय।	
29. श्री के० नीलम रतन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, चंडीगढ़ समाहर्तालय।	
30. श्री आर० रमन	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
31. श्री एच०देव राजू	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पुणे समाहर्तालय।	
32. श्री सी०सी० करीकोट्टी	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पुणे समाहर्तालय।	
33. श्री राजेण धीगडा	सहायक समाहर्ता, गोआ सीमाशुल्क, गुड।	
34. श्री ए० शशिधरन	सहायक समाहर्ता, कांचीन सीमाशुल्क, गुड।	
35. श्री ए०के० श्रीनिवासन	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
36. श्री वी०वी० अथन्दराध	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बोचीन समाहर्तालय।	
37. श्री के०एल० इन्द्र (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कानपुर समाहर्तालय।	
38. श्री राजेंद्र प्रसाद (अनु० जाति)	अवर सचिव, राजस्व विभाग, नई दिल्ली।	
39. श्री सी० जे० पारम	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
40. श्री ए०सी० निरमल (अनुसूचित जाति)	सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, कटकता।	
41. श्री वी०जी० पाटिल मुत्तानी (अनुसूचित जाति)	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
42. श्री बलदेव मिश्र (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पश्चिम बंगाल समाहर्तालय।	
43. श्री जी०बी० तायक (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मदुरै समाहर्तालय।	
44. श्री आर०के० पाण्डे	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
45. श्री ए०बी० राजू (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बम्बई-11 समाहर्तालय।	
46. श्री के०एन० शिवरामन	सहायक निदेशक, आर०डी०आई०, मद्रास।	

संख्या 51/का०सं० ए०-32012/7/82-प्रशा०-II-राष्ट्रपति ने भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा समूह "क" कनिष्ठ बेतनमान (700-1300 रु०) के निम्नलिखित अधिकारियों को, 1 अक्टूबर 1979

से अगला आदेश होने तक वरिष्ठ वेतनमान (1100-1600 रु०) में स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत किया है ---

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान नियुक्ति
1	2	3
1.	श्री रमेश कुमार	सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, राँची।
2.	श्री के०के० श्रीधरनाथ	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।
3.	श्री एम०एम० रात	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
4.	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमा शुल्क, गृह।
5.	श्री विश्वजीत दत्ता	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता समाहर्तालय।
6.	श्री राजेंद्र प्रकाश	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बरकतपुर समाहर्तालय।
7.	श्री विशाल मिश्र	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, जयपुर समाहर्तालय।
8.	श्री आर० जे० छगमाजी	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमाशुल्क, गृह।
9.	श्री आर०के० रैन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता समाहर्तालय।
10.	श्री टी०एन०के० गोरी	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, अहमदाबाद समाहर्तालय।
11.	श्री सुदीप नंदी	सहायक समाहर्ता, कलकत्ता सीमा-शुल्क, गृह।
12.	श्री जी० रामनाथन	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
13.	श्री प्रवीण महाजन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, चंडीगढ़ समाहर्तालय।
14.	श्री के०के० कालड़ा	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।
15.	श्री पी० मुकुन	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
16.	श्री बी०आर० त्रिपाठी	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बम्बई-11 समाहर्तालय।
17.	श्री बी०सी० चक्रवर्ती	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
18.	श्री एम०बी० चौहान	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, हैदराबाद समाहर्तालय।
19.	श्री बी०के० पुरी	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बंगलौर समाहर्तालय।
20.	श्री एम०पी० शर्मा	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
21.	श्री पी०के० अग्रवानी	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमाशुल्क, गृह।
22.	श्री एम० वीरैया	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मद्रास समाहर्तालय।
23.	श्री के०एन० मरवाह	सहायक समाहर्ता, प्रकाशन निदेशालय।
24.	श्री सी० एम० मेहरा	सहायक निदेशक संगठन एवं प्रबन्ध सेवा निदेशालय।
25.	श्री अहमद हुसैन	सहायक निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, नई दिल्ली।
26.	श्री आर०डी० मिश्र	तेल प्राधिकार गैस आयोग में प्रति नियुक्ति पर।

1	2	3
27.	श्री शीला मगवान	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बड़ौदा समाहर्तालय।
28.	श्री शिरला मजूमदार	सहायक समाहर्ता, कलकत्ता सीमाशुल्क, गृह।
29.	श्री रेनुका मन्त	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, चंडीगढ़।
30.	श्री जे० गोपीनाथ	सहायक समाहर्ता, कलकत्ता सीमाशुल्क, गृह।
31.	श्री के०आर० भार्गव	सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, धर्मपुर।
32.	श्री टी०पी० श्रीवास्तव	सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, कानपुर।
33.	श्री ए०पी० वर्मा	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।
34.	श्री आर०एन० त्यागी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
35.	श्री गीतम रे	वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमाशुल्क, बोर्ड।
36.	श्री बी०के० श्रीनिवासन	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमाशुल्क, गृह।
37.	श्री सी०पी० आर्य (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, हैदराबाद समाहर्तालय।
38.	श्री ए० फन्तरी मेन त्रसदास (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बंगलौर।
39.	श्री के०के० पान्ठ्या	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
40.	श्री जी० मोहन (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बंगलौर समाहर्तालय।
41.	श्रीमती संध्या बलिगा (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, निरीक्षी अधिकारी, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली।
42.	श्री एम०एम० बघाल (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बम्बई-11 समाहर्तालय।
43.	श्री जी०के० मुखर्जी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
44.	श्री डी०डी० इंगली (अनुसूचित जनजाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, शिलांग समाहर्तालय।
45.	श्री एम० कृष्णन	सहायक समाहर्ता, मद्रास सीमाशुल्क, गृह।
46.	श्री एम०एम० नेगी (अनुसूचित जनजाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, चंडीगढ़ समाहर्तालय।

संख्या 52/का०सं० ए-32012/782-प्रशा०-II-राष्ट्रपति ने, भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम 1980 (700-1300ख०) के निम्नलिखित अधिकारियों को 1 जुलाई, 1980 से और अगला आदेश होने तक वरिष्ठ वेतनमान (1100-1600 रु०) में स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत किया है:—

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान नियुक्ति
1	2	3
1.	श्रीमती आई० दत्ता मजूमदार	सहायक समाहर्ता, निरीक्षी अधिकारी निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय।

1	2	3
6 श्री वीष्णु जाँव	सहायक समाहर्ता, कौचीन सीमा-शुल्क गृह।	
7 श्री प्रार०के० कपूर I	सहायक समाहर्ता, निरीक्षी अधिकारी निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली।	
8 श्री के० श्रीवास्तव	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमा-शुल्क गृह।	
9 श्री के०के० भा	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।	
10 श्री बी०पी० सिंह	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।	
11 श्री ए०के० दास	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता समाहर्तालय।	
12 श्री दीपक कुमार	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इन्दौर, समाहर्तालय।	
13 कु० माया प्रसाद	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बम्बई, समाहर्तालय।	
14 श्री एच०एस० जोशी	सेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
15 श्री बी० राम	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, गुजुर समाहर्तालय।	
16 श्री एन०के० नायर	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली समाहर्तालय।	
17 श्री राजीव कुमार	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।	
18 श्री एस०सी० जना	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पश्चिम बंगाल समाहर्तालय।	
19 श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इन्दौर समाहर्तालय।	
20 श्री सी०पी० श्रीवास्तव	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इन्दौर समाहर्तालय।	
21 एस०एल० सेठी	सहायक निदेशक, राजस्व प्रासूचना निदेशालय, दिल्ली।	
22 श्री जी०ओ० कुमार	सहायक समाहर्ता मद्रास सीमाशुल्क गृह।	
23 श्री जे०पी० पाल (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमाशुल्क गृह।	
24 श्री वया शकर	सहायक समाहर्ता बम्बई सीमाशुल्क गृह।	
25 श्री एम०के०एस० सोमवंशी	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कामपुर समाहर्तालय।	
26 श्री प्रो०एन० खन्ना	भारतीय उच्चायुक्त में डिप्टी सचिव।	
27 श्रीमती प्रा० हुसैन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मेरठ समाहर्तालय।	
28 कु० जे०के० नेमराम	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता समाहर्तालय।	
29 श्री बी०के० बिस्वाम (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, प० बंगाल समाहर्तालय।	
30 श्री बी०के० सिंह	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।	

1	2	3
31 श्री पी०के० जैन	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमाशुल्क गृह।	
32 श्री मेवा सिंह (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, जयपुर समाहर्तालय।	
33 श्री एम० एफ० महिर् (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क बम्बई-11 समाहर्तालय।	
34 श्री डी०जी० अहिरे (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बम्बई-11 समाहर्तालय।	
35 श्री बुलाचण्व (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, जयपुर समाहर्तालय।	
36 श्री एस० शोभाराजन (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मुंबई समाहर्तालय।	
37 श्री एम०एन० मिस्त्री (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।	
38 श्री वी०एम० टमटा (अनुसूचित जाति)	मेवा निवृत्त हो चुके हैं।	
39 श्री डी०एम० नेगी (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बम्बई-1 समाहर्तालय।	
40 श्री एम०पी० चौधरी (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मेरठ समाहर्तालय।	

संख्या 54/का०स० ए-32012/7/82-प्रशा० II—राष्ट्रपति ने भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सेवा श्रेणी "क" कनिष्ठ वेतनमान (700-1300 रु०) के निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानापन्न आधार पर तत्काल वरिष्ठ वेतनमान (1100-1600 रु०) में पदोन्नत किया है —

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	वर्तमान नियुक्ति
1	2	3
1	श्री ए०के० प्रसाद	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता समाहर्तालय।
2	श्री एम०पी० बैकटस्वामी (अनुसूचित जन जाति)	सहायक समाहर्ता, मद्रास सीमाशुल्क गृह।
3	श्री मोरज श्रीवास्तव	सहायक समाहर्ता, कलकत्ता सीमाशुल्क गृह।
4	श्री बाबुदेव एच० प्रा० (अनुसूचित जनजाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क भुवनेश्वर समाहर्तालय।
5	श्री जे० चतुर्वेदी	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पुणे समाहर्तालय।
6	श्री कुल खन्द (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, (निरीक्षी अधिकारी) निरीक्षण लेखा परीक्षा निदेशालय, केन्द्रीय सीमाशुल्क उत्पादन शुल्क।
7	कु० दीपा बिज्ज	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली समाहर्तालय।
8	श्री के०के० शर्मा	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अहमदाबाद समाहर्तालय।
9	श्री एम०के० चौधरी	सहायक समाहर्ता केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मेरठ समाहर्तालय।

1	2	3
10	श्री अरुण टंडन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बडौदा समाहर्तालय।
11	कु० एस० दास	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, भुवनेश्वर समाहर्तालय।
12	श्री एम०बी० मिश्र	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।
13	श्री मोनेन्द्र सिंह	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मेरठ समाहर्तालय।
14	श्री नजीब शाह	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मदुरै समाहर्तालय।
15	श्री एच०के० जैन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।
16	श्री एस०जे० अरुणराज	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मद्रास समाहर्ता सीमा-शुल्क गृह।
17	श्री संवीप जोशी	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिल्ली समाहर्तालय।
18	श्री के० जोगया (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलकत्ता समाहर्तालय।
19	श्री गौतमराय	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पश्चिम बंगाल समाहर्तालय।
20	श्री के०के० गोयल	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पटना समाहर्तालय।
21	श्री पी०आर० चन्द्रशेखरन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बंगलौर समाहर्तालय।
22	श्री ई०एफ० पेरियरा	सहायक समाहर्ता, मद्रास सीमाशुल्क, गृह।
23	श्री के०के० नाग	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मद्रास समाहर्तालय।
24	श्रीमती ए० बाबुदेव	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पुणे समाहर्तालय।
25	कु० एम०आई०जे० सादकन	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमाशुल्क, गृह।
26	श्री अशोक के० कौशल	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नागपुर समाहर्तालय।
27	श्री बी०एस० बाबुदेव	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, पुणे समाहर्तालय।
28	श्री ए० इजेल	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मद्रास समाहर्तालय।
29	श्री आर०के० अग्रवाल	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इन्दौर समाहर्तालय।
30	कु० ए० मिश्रजा	सहायक समाहर्ता, काचीन सीमाशुल्क, गृह।
31	कु० जे०ए० नायर	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मद्रास समाहर्तालय।
32	श्री जे० विजय कुमार	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बंगलौर समाहर्तालय।
33	श्री बी०एस० वेंकटेश्वर	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मदुरै समाहर्तालय।
34	श्री बी०एस० कृष्णन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बंगलौर समाहर्तालय।

1	2	3
35	श्री एन०एल० श्रीवास्तव	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इंदौर समाहर्तालय।
36	श्री एस०एम० राणा	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमाशुल्क, गृह।
37	कु० जगदीश लाम्बा	सहायक समाहर्ता, बम्बई सीमाशुल्क, गृह।
38	श्री श्री० मनिबामगम (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मदुरै समाहर्तालय।
39	श्री बी०पी० मिश्र (अनु० जाति)	सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, बालियर।
40	कु० निरीज राय (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बडौदा समाहर्तालय।
41	श्री० बदरुद्दीन	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, गुडर समाहर्तालय।
42	श्री बनारसी दाम (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, कलकत्ता सीमा-शुल्क गृह।
43	श्री आर०जे० कोयकलर	सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, बम्बई।
44	श्री सेवा राम (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, इलाहाबाद समाहर्तालय।
45	श्री एस० सुब्रह्मण्यम (अनुसूचित जाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, काचीन सीमाशुल्क, गृह।
46	श्री पी०आर० प्रसाद	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मद्रास समाहर्तालय।
47	श्री जी० भूपत	सहायक निदेशक, संगठन एवं प्रबंध सेवा निदेशालय, नई दिल्ली।
48	श्री एस०एल० वर्मा (अनुसूचित जनजाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बम्बई-11 समाहर्तालय।
49	श्री बी०एम० नेगी (अनुसूचित जनजाति)	सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, शिलांग समाहर्तालय।

जी०बी० सुब्रह्मण्यम,
प्रवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 17th August, 1982,

NOTIFICATION

CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENT

No. 45/ F. No.A-32012/7/82-Ad. II:—The President is pleased to promote on an officiating basis, the following officers of the Indian Customs and Central Excise Service Group 'A' Junior Scale (Rs 700-1300) to the Senior Scale (Rs 1100-1600) with effect from 1st November, 1973 and until further orders —

S	Name of the officer	Present posting
No		
1	2	3
1	Smt. Anita Sahanu	O S D. Ministry of Commerce, New Delhi

2	3	1	2	3
S/Shri		S/Shri		
2. S.R. Bali	Since retired.	45. K.S. Dharmaswarupan	Since Retired.	
3. I.R. Soni	Asstt. Dir., D'te of Preventive Operations, New Delhi.	46. M.K. Haldar	Since Retired.	
4. Smt. Chitra Saha	ACCE, Indore Coll'te (on leave)	47. L.S. Meccar	Since Retired.	
5. N.N. Motiwala	Since retired.	48. R. Almedia	ACCE, Bombay-I Coll'te	
6. T.V. Sairam	Jt. Dir., Deptt of E.A., New Delhi.	49. B. Saha (SC)	Asstt. Dir. R.T.I., Calcutta.	
7. S.D. Khare	STO, CBEC, New Delhi.	50. M.V.S. Prakash Rao	A.C., Madras C.H.	
8. P.G. Pal	AC, Calcutta C.H.	51. M.C. Kothandaraman	A.C., Madras C.H.	
9. Ramesh Ramachandra	U.S., CBEC, New Delhi.	52. N.C. Mukherjee	Since Retired.	
10. M.C. Sinha.	Since retired.	53. A.K. Dutta	Since Retired.	
11. A.P. Sudhir	ACCE, Madras Coll'te.	54. R. Parthasarathy	ACCE, Bombay II Coll'te.	
12. B.N. Mehta	Since retired.	55. H.R. Srinivasan	A.C., Madras C.H.	
13. A.N. Dewaraj	Since retired.	56. T.V. Krishnamurthy	Since Retired voluntarily	
14. A.K. Chakravorty	Since retired.	57. T.R.S. Mani	A.D., DRI, Madras.	
15. N.K.P. Sinha	S.A. to Minister of Industry, Steel & Mines, New Delhi.	58. K. Kumar	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.	
16. K.C. Lahiri	AC., Calcutta C.H.	59. N.I. Ramanathan	STO, Deptt. of Rev. New Delhi.	
17. Smt. Sunipa Basu	AC (IO) DIACCE, Delhi.	60. B.R. Chawla	A.D., DRI, Delhi.	
18. S.K. Singhal	ACCE, Calcutta Coll'te.	61. S.K.M. Abdul Allam	ACCE, Madurai Coll'te.	
19. S.S. Koketay	Since retired.	62. S.N. Peondbarkar	Since Retired.	
20. K.P. Singh	P.S. to Minister of Agriculture, New Delhi.	63. C.W.A. Fernandes	Retired Voluntarily.	
21. O.J.F. Gomes	A.C., Goa C.H.	64. A.C.A. Martins	Since Retired	
22. Darshan Sing	Since retired.	65. G.D. Pal	A.D. 'D'te of Enforcement New Delhi (on deputation)	
23. Kum. Prem Chokar (Mrs. Prem V.P. Singh)	Deputy Secretary, UPSC, New Delhi.	66. S.P. Chatterjee	Since Retired.	
24. S.P.S. Pundir.	STO, CBEC, New Delhi.	67. Ram Dhan Deb	U.S., Deptt of Revenue, New Delhi.	
25. S.M. Raza	Since retired.	68. L.A.D. Gama	Since Retired	
26. M.K. Bhada	STO., R.A. Unit, Deptt. of Revenue, New Delhi.	69. M.L. Verma	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.	
27. T.D. Choudhary	Since retired	70. G.P. Das Gupta	Since Retired.	
28. Milan Chakraborty	AC (IO) E.R.O. DIACCE, Calcutta.	71. M. Coutinho	Since Retired.	
29. S. Tulsidas	Since retired.	72. C.V. Kumaresan	Since Retired.	
30. Maheswar Prasad	A.C., Calcutta C.H.	73. V.K. Samtani	Since Retired.	
31. Jai Kishan	Retired voluntarily.	74. P.K. Dharam Pal	Since Retired.	
32. R.J. Pardiwala	Since retired.	75. R.C. Datt	Since Retired.	
33. G. Chimurkar	Since retired.	76. V. Ramachandran	A.C., RTI, Madras.	
34. Bhala Ram (SC) (B.R. Mehra)	ACCE, Allahabad Coll'te.	77. R. Subramanian	Since absorbed in Bharat Heavy Electricals.	
35. Manam Prasad	Since retired.	78. T. Gupta	Since Retired.	
36. K.G. Bhaskaran (SC)	A.C., Bombay C.H.	79. N.K. Kapoor	U.S. Deptt. of Revenue, New Delhi.	
37. I.S. Mathur	Since retired.	80. S.R. Banerjee	Since Expired.	
38. P.K. Sen Gupta	Since retired.	81. K. Ramachandran	Since Retired.	
39. Z.B. Nagarkar (ST)	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.	82. P.S. Ahluwalia	AC(IO), DICCE, Bombay.	
40. P. Subramani	ACCE, Patna Coll'te	83. P.S. Venkatedari	ACCE, Hyderabad Coll'te	
41. Devandra Dutt	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi. (He will draw pay in Senior Scale from 21-7-74).	84. N.B. Das	Since Retired.	
42. N.L. Gajagos	Since Retired.	85. V.A. Phadkar	Since Retired.	
43. A.J. D'Guitha	Since Retired.	86. W.S. Krishnan	A.D., RTI, Madras.	
44. K.K. Sen Gupta	Since Retired.	87. A.S. Shiekh Adam	Since Retired.	
		88. B.N. Samtani	Since Retired.	
		89. S.K. Bhatta Gupta	Since Retired.	
		90. D.L. Paul	A.C., Madras C.H.	

1	2	3
S/Shri		
91. K. Rikhye	Since Retired.	
92. Vijendra Kumar	ACCE, Delhi Coll'te.	
93. J.C. Halge	Since Retired.	
94. M. Tikamdas	Since Retired.	
95. V. Chandrasekharan	A.D., RTI, Madras.	
96. M.M. Mathur	On deputation to Trade Development, New Delhi.	
97. V.D. Gupte	Since Retired.	
98. T.B. Winter	A.C., Madras C.H.	
99. M.S. Rajappa	A.C., Bombay C.H.	
100. I.S. Dhundshay	Since Retired.	
101. H.S. Verma	Since Retired.	

No. 46/ F. No. A-32012/7/82-Ad. II:—The President is pleased to promote on an officiating basis, the following officers of the Indian Customs and Central Excise Service, Group 'A', Junior Scale (Rs. 700-1300) to the Senior Scale (Rs. 1100-1600) with effect from 1st November, 1974 and until further orders:—

S. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	2	3
	S/Shri	
1.	K.M. Tewari	ACCE, Bombay-I Coll'te.
2.	K.M. Vyas	Since Retired.
3.	J. Sridharan	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.
4.	M.P. Agarwal	Since Retired.
5.	S. Krishnamurthy	ACCE, Bangalore Coll'te.
6.	P.N. Srinivasan	A.C., Madras C.H.
7.	Onkar Nath	ACCE Delhi.
8.	Jaswant Singh	Since Retired.
9.	Y.R. Sachdeva	Since Retired.
10.	S.C. Mathur	ACCE, Jaipur Coll'te.
11.	D.P. Dubey	Since Retired.
12.	P.C. Jha	A.D., DRI, Delhi.
13.	M.M. Mandviwala	Since Retired.
14.	K.K. Agarwal	JDR (Gr.A), C.E.G.A.T., New Delhi.
15.	R. Bihari	ACCE, Allahabad Coll'te.
16.	Smt. Komala Choudhary	ACCE, Madras Coll'te.
17.	A.K. Raha	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.
18.	Jogendra Singh	U.S., Min. of Defence, New Delhi.
19.	S.K. Mangaonkar	Since Retired.
20.	S.K. Pali	A.C., Bombay C.H.
21.	W.J. Robb	Since Retired.
22.	P.N. Sarangi	A.C., Bombay C.H.
23.	B. Veeraswamy	Since Retired.
24.	J.S. Wagh	Since Retired.
25.	M.A. Bheemaiah (SC)	A.D., DRI, Bangalore.
26.	J.M. Jain	JDR (Gr. A), C.E.G.A.T., Bombay.
27.	J.S.R. Kathing (ST)	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.

1	2	3
S/Shri		
28. N.P. Sinha	Since Retired.	
29. Z. Tochhawang (ST)	ACCE, Bangalore Coll'te.	
30. P.L. Sanyal	Since Expired.	

No. 47/F. No. A-32012/7/82-Ad. II:—The President is pleased to promote on an officiating basis, the following officers of the Indian Customs and Central Excise Service, Group 'A', Junior Scale (Rs. 700-1300) to the Senior Scale (Rs. 1100-1600) with effect from 1st Dec., 1975 and until further orders:—

S. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	2	3
	S/Shri	
1.	B.K. Gupta	ACCE, Allahabad Coll'te.
2.	S.R. Barua	Since Retired.
3.	E. Moses	Since Retired.
4.	B.S. Ganu	Bureau of Industrial Cost & Prices (on deputation).
5.	Y.P. Senapathi	Since Retired.
6.	J.M.K. Sekhar	A.D., DRI, Madras.
7.	Y. Roy Chowdhury	Since Retired.
8.	P.C. Chatterjee	Since Retired.
9.	Yuv Raj Gupta	S.T.O. (RA), Deptt. of Revenue New Delhi.
10.	A.R. Desai	Since Retired.
11.	Smt. Hira Radhakrishnan	ACCE, Cochin Coll'te.
12.	G.C. Banerjee	Since Retired.
13.	Lakhinder Singh	STO, CBEC, New Delhi.
14.	M.S. Mukherjee	Since Retired.
15.	J.K. Batra	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.
16.	S.N. Roy	Since Retired.
17.	K.C. Puri	Cabinet Sectt., New Delhi.
18.	S.S. Ranjhan	U.S., Deptt. of Per. & A. Rs., New Delhi.
19.	N.G. Nandi Majumdar	Since Retired.
20.	S. Ganguly	Since Retired.
21.	Vijay Singh	A.C., Madras C.H.
22.	S. Dafedar	Since Retired.
23.	Devender Singh	ACCE, Bangalore Coll'te.
24.	V.S. Raje	Since Retired.
25.	S. Sabhapathi	A.C., Madras C.H.
26.	A.K. Srivastava	A.C., Calcutta C.H.
27.	B.K. Gupta	Since Retired.
28.	K. Subramanian	Since Retired.
29.	V. Kuppuswamy	ACCE, Madurai Coll'te.
30.	M.S. Vaidyanathan	Since Retired.
31.	J.R. Nebhoria (SC)	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.
32.	K.K. Chopra	Since Retired.
33.	Som Nath (SC)	A.C., Bombay C.H.
34.	U.K. Mathur	ACCE, Kanpur Coll'te.

No. 48 /F. No. A-32012/7/82-Ad.-II:—The President is pleased to promote on an officiating basis, the following officers of the Indian Customs and Central Excise Service, Group 'A' Junior Scale (Rs. 700-1300) to the Senior Scale (Rs. 1100-1600) with effect from 1st August, 1976 and until further orders:—

S. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	2	3
S/Shri		
1. S.C. Choudhury	A.C., Bombay C.H.	
2. V.M. Diophode	ACCE, Hyderabad Coll'te.	
3. T.C. Mathew	Since Retired.	
4. M. Dwivedi	A.D., DRI, Lucknow	
5. D. Subbarao	Since Retired.	
6. C.M. Goel	Since Retired.	
7. R.N. Verma	Since Retired.	
8. T.K. Jayaraman	ACCE, Pune Coll'te.	
9. K.C. Saxena	Since Retired.	
10. V. Sridhar	STO (RA) Deptt. of Rev., New Delhi.	
11. R.D. Parikh	Since Retired.	
12. B.B. Prasad	ACCE, Bhubaneswar Coll'te.	
13. S.P. Singh	ACCE, Bombay-I Coll'te.	
14. A.P. Kala	A.D., DRI, Bombay.	
15. A.C. Buck	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.	
26. S.K. Nagarajan	Since Retired.	
27. R.M. Ramchandani	A.C., Bombay C.H.	
28. R.J. Beley (SC)	ACCE, Nagpur Coll'te.	
29. S.A. Popely	Since Retired.	
20. Y.P. Panghar (SC)	AC (IO) DICCE, New Delhi.	
21. K.G. Vicharo	Since Retired.	
22. M.N. Singh	Since Retired.	
23. Jeet Ram Kait (SC)	ACCE, Calcutta Coll'te.	
24. H.S. Sharma	Since Retired.	
25. Amar Singh (ST)	ACCE, Shillong Coll'te.	
26. R.M. Patil	Since Retired.	
27. John Leingilneia (ST)	ACCE, Shillong Coll'te.	

No. 49/ F. No. A-32012/7/82-Ad. II:—The President is pleased to promote on an officiating basis, the following officers of the Indian Customs and Central Excise Service, Group 'A' Junior Scale (Rs. 700-1300) to the Senior Scale (Rs. 1100-1600) with effect from 1st July, 1977 and until further orders:—

S. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	2	3
S/Shri		
1. P.V. Das	ACCE, Madurai Coll'te.	
2. Subhash Chander	STO, CBEC, New Delhi.	
3. R.P. Mathur	Since Retired.	
4. Rakesh Sharma	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.	
5. J.S. Arora	Since Retired.	

1	2	3
S. Shri		
6. K.S. Nair	STO (RA), Deptt. of Revenue, New Delhi.	
7. K.D. Mankar	US, Deptt. of Revenue, New Delhi.	
8. Anil Bhatnagar	A.N.C., Gwalior.	
9. Suraj Prakash	Since Retired.	
10. Gurjeet Singh Narang	A.C., Bombay C. H.	
11. D.L. Kholkute	Since Retired.	
12. T.P. Singhal	ACCE, Chandigarh Coll'te.	
13. H.R. Barlikar (SC)	Since Retired.	
14. Miss L. Elizabeth Debhsia (Mrs. Lalitha John)	ACCE, Cochin Coll'te.	
S. Shri		
15. S.S. Radhakrishnan	ACCE, Cochin Coll'te.	
16. V.K. Sharma	STO (RA) Deptt. of Revenue, New Delhi	
17. D.P. Mathur	Since Retired.	
18. A. Bhattacharya	Asian Games Sectt., New Delhi.	
19. Kailash Nath Gupta	ACCE, Bombay-II Coll'te.	
20. K.D. Yammadi	Since Retired.	
21. Dinesh Kalckar	ACCE, Kanpur Coll'te.	
22. Smt. Chitra Gauri Lal	ACCE, Delhi Coll'te.	
23. K.P. Misra	ACCE, Indore Coll'te.	
24. S.D. Majumdar	Asian Games Sectt., New Delhi.	
25. K. Rai	Since retired.	
26. C.K. Kaloni	ACCE, Calcutta Coll'te.	
27. V. Laxmi Kumaran	U.S. Deptt. of Revenue, New Delhi.	
28. A.S.R. Nair	Cochin (CH)	
29. A.K. Basu	Since retired.	
30. C.V. Shiv Ram	ACCE, Bangalore Coll'te.	
31. A.J. Pal.	Since retired.	
32. K.C. Singh	ACCE, Patna Coll'te.	
33. Sreedhar Prasad	Since retired.	
34. R.K. Gupta.	AD, DRI., Bombay.	
35. D.B. Bhappu.	Since retired.	
36. P. Karthikayan	ACCE, Cochin Coll'te.	
37. S.V. Kirtikar.	Since retired.	
38. C.R. Bunkar (SC)	ACCE, Hyderabad Coll'te.	
37. E.J. Coelho.	ACCE, Madras Coll'te.	
40. A.D. Khadtare (ST)	ACCE, Nagpur Coll'te.	
41. George Barla (ST)	ACCE, Bombay-II Coll'te.	
42. Prem Raj (ST)	U.S. Deptt. of Revenue, New Delhi.	
43. K.C. Chakraborty	Since retired.	

No. 50 F. No. A-32012/9/82-Ad. II:—The President is pleased to promote, on an officiating basis, the following officers of the Indian Customs and Central Excise Service, Gr. 'A', Jr. Scale (Rs. 700-1300) to the Sr. Scale (Rs. 1100-1600) with effect from 1st July, 1978 and until further orders:—

S. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	2	3
S/Shri		
1. B.K. Goel	STO, Deptt. of Revenue, New Delhi.	
2. Y.G. Parande	AD, DRI, Bombay.	
3. P.S. Kapur	Since Retired.	
4. Hari Om Tiwari	AC (IU), DICCS, Delhi.	
5. M.R. Sachdeva	Since Retired.	

1	2	3	1	2	3
S/Shri					
6. Kum. Vijay Laxmi Sharma	ACCE, Chandigarh Coll'te.		3. L.S. Rane	Since expired.	
7. D.N. Gaur	Since Retired.		4. Pradeep Kumar Sirohi	AC, Bombay C.H.	
8. Ajit Kumar	ACCE, Bombay-II Coll'te.		5. Biswajit Dutta	ACCE, Calcutta Coll'te.	
9. D.K. Dutta	U.S. Deptt. of Revenue, New Delhi.		6. Rajendra Prakash	ACCE, Bombay-I Coll'te.	
10. Ashok Kapur	ACCE, Delhi. Coll'te		7. Kishan Singh	ACCE, Jaipur Coll'te.	
11. K. Vijay Raghavan	A.C. Madras C.H.		8. R.J. Chandiramani	AC, Bombay C.H.	
12. Hrishikesh Sharan	A.D., DRI, Patna.		9. R.K. Jain	ACCE, Calcutta Coll'te.	
13. Shishir Kumar	ACCE, Allahabad Coll'te.		10. T.H.K. Gauri	ACCE, Ahmedabad Coll'te.	
14. T.M. Gohani	Since Retired.		11. Suidipte Nandy	AC, Calcutta C.H.	
15. T. Prem Kumar	AC (IO) DIACCE, Delhi.		12. G. Ramanathan	Since retired.	
16. S.S. Rana	ACCE, Patna Coll'te.		13. Kum. Praveen Mahajan	ACCE, Chandigarh Coll'te	
17. C. Satpathi	STO, Deptt. of Revenue, New Delhi.		14. K.K. Kalra	ACCE, Patna Coll'te.	
18. Rakesh Bhatia	AC (IO) N.R.U. DIACCE,		15. P. Murugan	Since Retired.	
19. Iype Mathew	ACCE, Hyderabad Coll'te.		16. B.R. Tripathi	ACCE, Bombay-II Coll'te.	
20. Prabakar Nigam	ACCE, Kanpur Coll'te.		17. B.C. Chakraborty	Since retired.	
21. Kum. Jasdeep Kaur Sidhu	A.C. Bombay C.H.		18. H.V. Chauhan	ACCE, Hyderabad Coll'te.	
22. V.N. Khullarwar	Since Retired.		19. V.K. Puri	ACCE, Bangalore Coll'te.	
23. Rahul Goel	ACCE, Kanpur Coll'te.		20. S.P. Sharma	Since retired.	
24. D. Mehta	U.S. Deptt. of Revenue, New Delhi.		21. P.K. Ajwani	AC, Bombay C.H.	
25. R.C. Nitgun	Since Retired.		22. M. Veeraiyan	ACCE, Madras Coll'te	
26. C. Mahesh	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.		23. K.L. Marwah	A.C. Directorate of Publications.	
27. J.A. Rodrigues	Since Retired.		24. C.M. Mehra.	A.D. Directorate of O & M Services.	
28. Vineet Ohri	ACCE, Delhi Coll'te.		25. Ahmed Hussain	A.D. Directorate of Training, New Delhi.	
29. K. Neelam Rattan	ACCE, Chandigarh Coll'te.		26. R.D. Mishra.	On deputation to O.N.G.C.	
30. R. Raman	Since Retired.		27. Kum. Shiela Sangwan.	ACCE, Baroda Coll'te.	
31. N. Dev Raju	ACCE, Pune Coll'te.		28. Kum. Shirla Majumdar.	A.C. Calcutta C.H.	
32. C.C. Karikotti	ACCE, Pune Coll'te.		29. Kum. Renuka Mann	ACCE, Chandigarh.	
33. Rajesh Dhingra	A.C. Goa C.H.		30. J. Gopinath	A.C., Calcutta C.H.	
34. N. Sasidharan	A.C., Cochin C.H.		31. K.R. Bhargava	AD' DRI, Amritsar.	
35. N.K. Srinivasan	Since Retired.		32. D.P. Srivastava	AD, DRI Kanpur.	
36. V.V. Jayendra Nath	ACCE, Cochin Coll'te.		33. A.P. Verma	ACCE, Patna Collectorate.	
37. K.L. Indra (SC)	ACCE, Jaipur Coll'te.		34. R.N. Tyagi	Since retired.	
38. Rajendra Prasad (SC)	U.S., Deptt. of Revenue, New Delhi.		35. Gautam Ray	S.T.O. C.B. E. & C.	
39. C.J. Paria	Since Retired.		36. V.K. Srinivasan	A.C. Bombay C.H.	
40. A.C. Tikadar (SC)	A.D., DRI, Calcutta.		37. C.P. Arya (SC)	ACCE, Hyderabad Coll'te.	
41. Y.G. Patil Kulkarni	Since Retired.		38. Kum. Fantry Main Jaswal (SC)	ACCE, Bangalore.	
42. Balbir Singh (SC)	ACCE, West Bengal Collectorate.		39. K.K. Panhya	Since retired.	
43. G.V. Naik (ST)	ACCL, Madurai Coll'te.		40. G. Mohan (SC)	ACCE Bangalore Coll'te.	
44. R.K. Pande	Since Retired.		41. Smt. Sandhya Baliga (SC)	ACIO, DIACCE, Delhi.	
45. M.C. Thakur (ST)	ACCE, Bombay-I Coll'te.		42. M.S. Badhan (SC)	ACCE, Bombay-II Coll'te.	
46. K.S. Sivaraman	A.D., RTI, Madras.		43. G.K. Mukherjee	Since retired.	

No. 51/F. No. A-32012/7/82—Ad. II:—The President is pleased to promote, on an officiating basis, the following officers of the Indian Customs and Central Excise Service, Group 'A', Jr. Scale (Rs. 700-1300) to the Sr. Scale (Rs. 1100-1600) with effect from 1st November, 1979 and until further orders:—

S. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	2	3
S/Shri		
1. Rakesh Kumar	A.D. DRI, Surat.	
2. K.K. Srivastava	ACCE, Patna Coll'te.	

No. 52 /F. No. A-32012/7/82-Ad. II:—The President is pleased to promote, on an officiating basis, the following officers of the Indian Customs and Central Excise Gr. 'A', Jr. Scale (Rs. 700-1300) to the Sr. Scale (Rs. 1100-1600) with effect from 1st July, 1980 and until further orders:—

S. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	2	3
1. Smt. I. Dutta Majumdar	ACIO, DIACCE, Delhi	
2. S/Shri D.D. Chatterjee	Since retired.	
3. M.N. Biswas	A.C. Calcutta C.H.	
4. Anil Taneja	A.C. Bombay C.H.	
5. P.S. Choudhary	Since retired.	

1	2	3
S/Shri		
6. R.K. Chhabra	ACCE, Delhi Coll'te	
7. M.K. Gupta	ACCE, Ahmedabad Coll'te.	
8. Kum. J.M.S. Sundaram	ACCE, Madras Coll'te.	
9. C. Varadarajan	A.C. Calcutta C.H.	
10. R.S. Sidhu	ACCE, Bombay C.H.	
11. L.D. Arora	A.D. DRI, Ahmedabad.	
12. Ashok Mehta	U.S. Deptt. of Revenue.	
13. A.K. Dhar	AC, Bombay C.H.	
14. Y.S. Bawa	Since retired.	
15. Y.R. Kishan (ST)	A.C., Viskhapatnam.	
16. Vineet Kumar	ACCE, Nagpur Coll'te.	
17. G.V. Subbaiah	Since retired.	
18. Sunil Kumar	A.C., Bombay C.H.	
19. Suman Nayar	A.C., Calcutta C.H.	
20. Kum. S. Venkatanara-rasimbhan	ACCE, Bangalore Coll'te.	
S/Shri		
21. Chandrahans Mathur	ACCE, Madras Coll'te.	
22. B.N. Shah	Since retired.	
23. Kum. Lipika Majumdar	A.C. Calcutta C.H.	
S/Shri		
24. G.C. Mathur	S.T.O. C.B.E. & C.	
25. C.M. Madhavan Nair	Since retired.	
26. Narayana Basu	A.C. Calcutta C.H.	
27. J.P. Gregory	A.C., Bombay C.H.	
28. G.S. Chowdhary	Since retired.	
29. A.K. Misra	ACCE, Allahabad Coll'te.	
30. K.N. Mitra	Since Retired.	
31. A.K. Agnihotri	A.C. Bombay, C.H.	
32. N.L. Ramanathan	Since Retired.	
33. S.C. Nayak	ACCE, Hyderabad Coll'te.	
34. K.S. Venkatagiri	ACCE, Hyderabad Coll'te	
35. Smt. Kusum Sathapathy	STO, CBEC.	
S/Shri		
36. M. Suresh	ACCE, Cochin Coll'te.	
37. Satnam Singh (SC)	AD, DRI, Delhi.	
38. K.M. Mondal (SC)	A.C., Calcutta C.H.	
39. A.K. Chakraborty	Since Retired.	
40. R.S. Dinkar (SC)	A.D. DRI, Delhi.	
41. P.S. Raju (SC)	ACCE, Madras Coll'te.	
42. A. Vijayaraghavan	A.C., Madras C.H.	
43. Om Parkash (SC)	A.C., Calcutta C.H.	
44. D.K. Marandi	A.C., Calcutta C.H.	
45. A. Gopalakrishnan	Since Retired.	
46. J.R. Sethuraman	Since Retired.	

No. 53 /F. No. A-42012/7/82-Ad-II:- The President is pleased to promote, on an officiating basis, following officers of the Indian Customs and Central Excise, Gr. 'A', Jr. Scale Rs. 700-1300) to the Sr. Scale (Rs. 1100-1600) with effect from 1st November, 1981 and until further orders :-

S. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	2	3
	S/Shri	
1.	P.S. Pruthi	ACCE, Chandigarh Coll'te.
2.	P.R. Bajaj	Ad, Dte. of Publications.
3.	Smt. Ruchina Pant	ACCE, Meerut Coll'te.
	S/Shri	
4.	Saheb Singh	ACCE, Kanpur Coll'te.
5.	Arun Sahu	ACCE, West Bengal Coll'te
6.	Methew John	A.C. Cochin C.H.
7.	R.K. Kapur I	ACIO, DIACCE, Delhi.

1	2	3
S/Shri		
8. K. Srivastava	AC, Bombay C.H.	
9. K.K. Jha	ACCE, Patna Coll'te.	
10. B.P. Singh	ACCE, Patna Coll'te.	
11. A.K. Das	ACCE, Calcutta Coll'te.	
12. Deepak Kumar	ACCE, Indore Coll'te.	
13. Kum. Mala Prasad	ACCE, Bombay I Coll'te.	
S/Shri		
14. H.S. Jolly	Since retired.	
15. V. Ramu	ACCE, Guntur Coll'te.	
16. N.K. Nayyar	ACCE, Delhi Coll'te.	
17. Rajiv Kumar	ACCE, Patna Coll'te	
18. S.U. Jana	ACCE, West Bengal Coll'te.	
19. Harjinder Singh	ACCE Indore Collectorate	
20. C.P. Srivastava	ACCE, Indore Collectorate	
21. S.L. Sethi	AC, DRI, Delhi.	
22. G. Shree Kumar	AC, Madras C.H.	
23. J.P. Pal (SC)	AC, Bombay C.H.	
24. Daya Shankar	A.C., Bombay C.H.	
25. S.K.S. Somvanshi	ACCE, Kanpur Coll'te.	
26. O.N. Khanna	Second Secretary Indian High Commission, London.	
27. Smt. R. Hussain	ACCE, Meerut Coll'te.	
28. Kum. J.K. Laisram	ACCE, Calcutta Coll'te.	
29. B.K. Biswas (SC)	ACCE, West Bengal Coll'te.	
30. B.K. Singh	ACCE, Patna Coll'te.	
31. P.K. Jain	A.C., Bombay C.H.	
32. Mewa Singh (SC)	ACCE, Jaipur, Coll'te	
33. S.F. Mahire (SC)	ACCE, Bombay-II Coll'te.	
34. D.G. Ahire (SC)	ACCE, Bombay-II Coll'te.	
35. Duli Chand (SC)	ACCE, Jaipur, Coll'te.	
36. S. Sholarajan (SC)	ACCE, Madurai Coll'te.	
37. M.N. Mistry (SC)	ACCE, Patna Coll'te.	
38. V.S. Tamta (SC)	Since retired.	
39. D.S. Negi (ST)	ACCE, Bombay-I Coll'te.	
40. M.P. Choudhary (SC)	ACCE, Meerut Coll'te.	

No. 54/F. No. A-32012/7/82-Ad-II:-The President is pleased to promote, on an officiating basis, the following officers of the Indian Customs and Central Excise Service Gr. 'A', Jr. Scale (Rs. 700-1300) to the Sr. Scale (Rs. 1100-1600) with immediate effect :-

Sl. No.	Name of the Officer	Present Posting
1	2	3
	S/Shri	
1.	A.K. Prasad	ACCE, Calcutta Coll'te.
2.	M.P. Venkateswamy (ST)	AC, Madras C.H.
3.	Neeraj Srivastava	AC, Calcutta C.H.
4.	Basudev HO (ST)	ACCE, Bhubaneswar Coll'te.
5.	J. Chaturvedi	ACCE, Pune Coll'te.
6.	Phool Chand (SC)	AC (IO), DIACCE, Delhi.
7.	Kum. Deepa Bij or.	ACCE, Delhi Collectorate.
	S/Shri	
8.	K.K. Sharma	ACCE, Ahmedabad Coll'te
9.	S.K. Choudhary	ACCE, Meerut Coll'te.
10.	Arun Tandon.	ACCE, Baroda Coll'te.
11.	Kum. S. Das.	ACCE, Bhubaneswar Coll'te.
	S/Shri	
12.	S.B. Singh	ACCE, Patna Coll'te.
13.	Satinder Singh	ACCE, Meerut Coll'te.
14.	Najib Shah	ACCE, Madurai Coll'te.
15.	H.K. Jain	ACCE, Patna, Coll'te.
16.	S.J. Arujeraj	ACCE, Madras C.H.

1	2	3	1	2	3
S/Shri			S/Shri		
17. Sardip Joshi		ACCE, Delhi Coll'te.	36. S.S. Rana		AC, Bombay C.H.
18. K. Jayya (SC)		ACCE Calcutta Coll'te.	37. Kr. Jagit Lamba		AC, Bombay C.H.
19. Gautam Ray		ACCE, West Bengal, Coll'te.	38. G. Manivashagam(SC)		ACCE Madurai Collectorate.
20. K.K. Gcel		ACCE, Patna Coll'te.	39. B.P. Singh (SC)		Asstt. Narcotics Commissioner, Gwalior.
21. P.R. Chandrashekharan		ACCE, Bangalore Coll'te.	40. Kum. Nirija Roy (SC)		ACCE Chandigarh Collectorate.
22. E.F. Pareira		AC, Madras C.H.			
23. K.K. Nag		ACCE, Madras Coll'te.	S/Shri		
24. Mrs. A. Vasudev		ACCE, Pune Coll'te.	41. M. Md. Badruddin		ACCE, Guntur Collectorate.
25. Kum. M.I.J. Michael		AN Bombay C.H.	42. Banarsi Das (SC)		A/C., Calcutta Custom House.
S/Shri			43. R.J. Kothaklar		A.D., DRI, Bombay.
26. Ashok K. Kaushal		ACCE, Nagpur Coll'te.	44. Seva Ram (SC)		ACCE, Allahabad Collectorate.
27. B.S. Basudev		ACCE, Pune Coll'te.			
28. A. Hajela		ACCE, Madras Coll'te.	45. S. Subramanian (SC)		ACCE, Cochin Custom House.
29. R.K. Agarwal		ACCE, Indore Coll'te.	46. P.R. Prasad		ACCE, Madras Collectorate.
30. Kum. A. Girija		AC, Cochin C.H.	47. G. SamPATH		Ad. D'te of O & M Services, New Delhi.
31. Kum. J.A. Na'r		ACCE, Madras Coll'te.	48. S.L. Verma (ST)		ACCE, Bombay Collectorate.
S/Shri			49. D.S. Negi (ST)		ACCE, Shillong Collectorate
32. J. Vijay Kumar		ACCE, Bangalore Coll'te			
33. B.S. Venkatese Murthy		ACCE Madurai Collectorate			
34. V.S. Krishnan		ACCE, Bangalore Coll'te.			
35. N.L. Srivastava		ACCE, Indore Coll'te.			

G.V. SUBRAMANYAM, Under Secy.